

मकखनपुर में बनाई जा रही थी नकली चंबल रिफाइंड

Publish Date: Wed, 13 Mar 2019 11:09 PM (IST)



जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद: मकखनपुर में नकली रिफाइंड बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। छापामार कार्रवाई में यहां नकली चंबल ब्रांड की रिफाइंड बरामद होने के साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कंपनी के अधिकारियों ने कॉपी राइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

चंबल ब्रांड रिफाइंड बनाने और बेचने वाली बूंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने प्रशासन से शिकायत की थी कि मकखनपुर में उनके ब्रांड की नकली चंबल बनाई जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने इलाका पुलिस के साथ पल्लवी कोल्ड स्टोर के निकट एक मकान में छापा मारा। यह मकान दीपक शर्मा पुत्र मुन्नालाल का बताया गया। दीपक घर में मौजूद मिला। टीम को देखकर उसके होश उड़ गए। घर में चंबल रिफाइंड का लेबल लगी 138 खाली और छह भरी टिन रखी मिलीं। वहीं 238 लेबल और टिन सील करने वाले 300 ढक्कन अलग रखे मिले। दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने टिन में भरे रिफाइंड का सैंपल लिया। इस दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीएस कुशवाहा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा, मुकेश शर्मा और रविभान सिंह मौजूद रहे। नहीं दिए सवाल के जवाब:

पकड़े जाने के बाद कंपनी एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दीपक से पूछताछ की। उससे पूछा कि वह नकली लेबल, ढक्कन और रिफाइंड कहां से लाता है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सोनपपड़ी व पनीर का सैंपल लिया

अधिकारियों ने टूंडला में हरिओम की दुकान से सोनपपड़ी का सैंपल लिया। उसमें रंग की मात्रा अधिक होने का संदेह जताया गया। टूंडला के ही सरस्वती नगर में जय सिंह की डेयरी से पनीर और राजा का ताल क्षेत्र पर चार पहिया वाहन से प्रोटो ब्रांड वनस्पति का सैंपल लिया।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/firozabad-fake-rifand-was-being-made-in-makhanpur-19041713.html>